



KHAN GLOBAL STUDIES


Most Trusted Learning Platform


GS PAPER- II (CSAT)


By Dhrub Sir

UPSC

CALENDAR







1. What was the day on 12th January 1979?

- a. Monday
- b. Tuesday
- c. Thursday
- d. Friday

1. 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन था?

- a. सोमवार
- b. मंगलवार
- c. गुरुवार
- d. शुक्रवार

2. The first Republic Day was celebrated on 26th January 1950. What was the day on that day?

- a. Tuesday**
- b. Wednesday**
- c. Thursday**
- d. Saturday**

2. पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। उस दिन कौन सा दिन था?

- a. मंगलवार**
- b. बुधवार**
- c. गुरुवार**
- d. शनिवार**

3. What day of the week was 17th August 1983?

- a. Monday**
- b. Wednesday**
- c. Saturday**
- d. Sunday**

3. 17 अगस्त 1983 को सप्ताह का कौन सा दिन था?

- a. सोमवार**
- b. बुधवार**
- c. शनिवार**
- d. रविवार**

4. Mahatma Gandhi was born 2nd October 1869. What was the day on that day?

- a. Monday
- b. Sunday
- c. Saturday
- d. None of these

4. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उस दिन कौन-सा दिन था?

- a. सोमवार
- b. रविवार
- c. शनिवार
- d. इनमें से कोई नहीं

5. Jan 5 , 1991 was Saturday. What day of the week was on March 3, 1992?

- a. Monday**
- b. Tuesday**
- c. Thursday**
- d. None of these**

5. 5 जनवरी 1991 को शनिवार था। तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था?

- a. सोमवार**
- b. मंगलवार**
- c. गुरुवार**
- d. इनमें से कोई नहीं**

6. January 1, 1992 was a Wednesday. What was the day on January 1, 1993?

- a. Monday
- b. Tuesday
- c. Sunday
- d. Friday

6. 1 जनवरी 1992 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 1993 को कौन-सा दिन था?

- a. सोमवार
- b. मंगलवार
- c. रविवार
- d. शुक्रवार

7. If 17th March 2008 was a Monday, what day was 1st April 2012?

- a. Sunday**
- b. Monday**
- c. Friday**
- d. Saturday**

7. यदि 17 मार्च 2008 को सोमवार था, तो 1 अप्रैल 2012 को कौन-सा दिन था?

- a. रविवार**
- b. सोमवार**
- c. शुक्रवार**
- d. शनिवार**

8. Monday falls on 4th April, 1988. What was the day on 3rd November, 1987?

- a. Monday**
- b. Sunday**
- c. Tuesday**
- d. Wednesday**

8. 4 अप्रैल, 1988 को सोमवार पड़ता है। तो 3 नवंबर, 1987 को कौन सा दिन था?

- a. सोमवार**
- b. रविवार**
- c. मंगलवार**
- d. बुधवार**

9. Today is 1st August. The day of the week is Monday. This is a leap year. The day of the week on this day after 3 years will be :

- a. Wednesday
- b. Thursday
- c. Friday
- d. Saturday

9. आज 1 अगस्त है। सप्ताह का दिन सोमवार है। यह एक लीप वर्ष है। 3 वर्ष बाद इस दिन सप्ताह का कौन-सा दिन होगा?

- a. बुधवार
- b. गुरुवार
- c. शुक्रवार
- d. शनिवार

10. Mr. 'X' has three children. The birthday of the first child falls on the 5th Monday of April, that of the second one falls on the 5th Thursday of November. On which day is the birthday of his third child, which falls on 20th December?

- a. Monday
- b. Thursday
- c. Saturday
- d. Sunday

UPSC PT 2020

10. मिस्टर 'एक्स' के तीन बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, दूसरे का नवंबर के 5वें गुरुवार को पड़ता है। उनके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है, जो 20 दिसंबर को पड़ता है?

- a. सोमवार
- b. गुरुवार
- c. शनिवार
- d. रविवार

UPSC PT 2020

11. In the particular year 12th January is a Sunday, then which one of the following is correct?
UPSC PT 2020

- a. 15th July is a Sunday if the year is a leap year.
- b. 15th July is a Sunday if the year is not a leap year.
- c. 12th July is Sunday if the year is a leap year.
- d. 12th July is not Sunday if the year is a leap year.

11. किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है?

UPSC PT 2020

- a. यदि वर्ष लीप वर्ष है तो 15 जुलाई रविवार है।
- b. यदि वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो 15 जुलाई रविवार है।
- c. यदि वर्ष लीप वर्ष है तो 12 जुलाई को रविवार है।
- d. यदि वर्ष लीप वर्ष है तो 12 जुलाई को रविवार नहीं है।

12. The year next to 1991, having the same calendar as that of 1991 is

- a. 1998**
- b. 2001**
- c. 2002**
- d. 2003**

12. 1991 के आगे किस वर्ष का कैलेंडर 1991 जैसा ही होगा?

- a. 1998**
- b. 2001**
- c. 2002**
- d. 2003**

13. The year next to 1988, having the same calendar as that of 1988 is

- a. 1996**
- b. 2004**
- c. 2016**
- d. None of these**

13. 1988 के आगे किस वर्ष का कैलेंडर 1988 जैसा ही होगा?

- a. 1996**
- b. 2004**
- c. 2016**
- d. इनमें से कोई नहीं**

14. The last day of a century can be

- a. Tuesday**
- b. Wednesday**
- c. Thursday**
- d. Saturday**

14. किसी सदी का आखिरी दिन हो सकता है:

- a. मंगलवार**
- b. बुधवार**
- c. गुरुवार**
- d. शनिवार**

15. Which day is 10th October 2027?

UPSC PT 2021

- a. Sunday
- b. Monday
- c. Tuesday
- d. Saturday

15. 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा?

UPSC PT 2021

- a. रविवार
- b. सोमवार
- c. मंगलवार
- d. शनिवार

16. Which date of June 2099 among the following is Sunday?

UPSC PT 2022

- a. 4
- b. 5
- c. 6
- d. 7

16. जून 2099 की निम्नलिखित में से कौन-सी तारीख को रविवार है?

UPSC PT 2022

- a. 4
- b. 5
- c. 6
- d. 7

THANK YOU!

